



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 22 नवम्बर, 2022

अग्रहायण 1, 1944 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD

NEW DELHI-110001

Dated: 21st November, 2022

DIRECTION

No. 576/3/EVM/2022/SDR/Vol.-II:—WHEREAS, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such Constituency or Constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify;

2. WHEREAS, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such Constituency or Constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct;

3. WHEREAS, the Election Commission has considered the circumstances in **Bye-elections in 21-Mainpuri Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 01-Padampur Assembly Constituency of Odisha, 21-Sardarshahar Assembly Constituency of Rajasthan, 93-Kurhani Assembly Constituency of Bihar, 80-Bhanupratappur (ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh and 37-Rampur and 15-Khatauli Assembly Constituencies of Uttar Pradesh announced vide the Election Commission's Press Notes no. ECI/PN/83/2022, dated November 5, 2022, No. ECI/PN/87/2022, dated November 8, 2022 and Commission's Press Note no. ECI/PN/88/2022, dated November 10, 2022 revising the schedule for Bye-election in 37-Rampur AC of Uttar Pradesh**, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)] are available for taking the poll in the above mentioned Parliamentary Constituency and Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. NOW, THEREFORE, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby **specifies 21-Mainpuri Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 01-Padampur Assembly Constituency of Odisha, 21-Sardarshahar Assembly Constituency of Rajasthan, 93-Kurhani Assembly Constituency of Bihar, 80-Bhanupratappur (ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh and 37-Rampur and 15-Khatauli Assembly Constituencies of Uttar Pradesh, Notified on 10th and 11th November, 2022** as the Constituencies in which the votes shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT Printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By order,
ASHWANI KUMAR MOHAL,
Secretary.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड
नई दिल्ली-110001,
दिनांक : 21 नवम्बर, 2022

निर्देश

सं० 576/3/ईवीएम/2022/एसडीआर/खंड-II:-यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह प्राविधान किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2-यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिया जाए; और

3-यतः, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 5 नवम्बर, 2022 एवं 8 नवम्बर, 2022 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे०नो०/83/2022 और ईसीआई/प्रे०नो०/87/2022 के तहत घोषित उत्तर प्रदेश के 21-मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उड़ीसा के 01-पदमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के

21—सरदारशहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के 93—कुढ़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के 80—मानुप्रतापपुर (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के 37—रामपुर एवं 15—खतौली विधान सभा क्षेत्र और आयोग के दिनांक 10 नवम्बर, 2022 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/88/2022 के द्वारा उत्तर प्रदेश के 37—रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप—निर्वाचन के संशोधित कार्यक्रम, के चालू उप निर्वाचनों के लिए उपयुक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि उक्त सभी संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) एवं वीवीपैट प्रिंटर्स की कार्य प्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं;

4—अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा 10 और 11 नवम्बर, 2022 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश के 21—मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उड़ीसा के 01—पदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के 21—सरदारशहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के 93—कुढ़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के 80—मानुप्रतापपुर (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के 37—रामपुर एवं 15—खतौली विधान सभा क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जहां निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन तथा इस विषय में आयोग द्वारा समय—समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5—निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा—विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटर्स, जिन्हें उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उपयुक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,
अश्वनी कुमार मोहल,
सचिव।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।